



Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No -0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, e-mail ID registrar@rtu.ac.in

F(62)/GAD/45/Food/14th Convocation/2024-25/8524

Dated 01.03.2025

NIB No. 08/2024-25

BID INVITING NOTICE

Rajasthan Technical University (RTU), Kota invites bid under Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 for supply/hiring of following goods/services from experienced, technically and financially sound & reputed bidders fulfilling eligibility criteria as described in the bid document as appended below:-

S. No.	Name of goods/services	Specifications /scope of work	Estimated Cost Rs.	Tender Fee Rs.	Bid Security Rs.	Performance Security Rs.
1.	High Tea, Lunch and Dinner etc during 14 th Convocation, 2025 on 24.03.2025 & 25.03.2025	As per tender documents	Rs. 9,90,000/- (With GST)	Rs. 1000/-+ GST@18% Total Rs. 1180	Rs. 20000	Rs. 50000 (to be deposited by successful bidder)

Important dates for downloading and submitting the tender are as follows:-

Date and time of downloading of bid document from SPPP Portal/University web site	From 02.03.2025 (10:00 AM)
Date and time of submission of bid along with Tender Fee and Bid Security	10.03.2025 up to (05:00 PM)
Date and time of opening of Technical Bid in the office of Registrar, RTU Kota	11.03.2025 at 11:30 AM
Date and time of opening of Price Bid in the office of Registrar, RTU Kota	Responsive bidder shall be informed accordingly.

Instructions to bidders:-

1. The bid documents, terms and conditions may be seen and downloaded from the web site www.sPPP.rajasthan.gov.in & www.rtu.ac.in.
2. The interested bidders may submit their bids along with separate Demand Draft drawn in favour of "Rajasthan Technical University, Kota" payable at Kota towards Tender Fee Rs. 1180/- and Bid Security Rs. 20000/-. The same fees may also be deposited in cash at Accounts office, RTU on or before the due date as mentioned above.
3. Bidder may also online deposit the above fees into following bank a/c of university on or before the above mentioned date, failing which bids shall not be considered. In case on online payment of above fees, the bidder should have to attach the self certified copies of successful payment receipts with technical bid.

Bank Account Name	Rajasthan Technical University, Kota
Name of Bank	Punjab National Bank
Account No.	1943012100001046
IFSC Code	PUNB0600900
Branch	RTU, Kota

4. Bids without Tender fee and Bid Security shall not be considered.
5. The Technical Bid and Price Bid shall be submitted in separate envelopes.
6. The Bids will be opened on the same date and time before purchase committee in the presence of bidder or their authorized representative who may be present.
7. In the event of the specified dates being a holiday, the activities assigned on that date may be carried out on next working day on the same time.
8. RTU, Kota is not bound to accept the lowest bid and may reject any bid or any part of the bid without assigning any reason there for.
9. Bids received after the prescribed time and date will not be considered.
10. Validity: - 90 days from the opening of bid.
11. In case of any query, the undersigned (Procurement Entity) may be contacted at 0744-2473003 or e-mail at gad@rtu.ac.in & registrar@rtu.ac.in


Registrar
Procurement Entity



Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, e-mail ID registrar@rtu.ac.in

बोली निविदा सूचना संख्या- 08/2024-25

पार्ट-अ

तकनीकी निविदा प्रपत्र

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1.	सामग्री/सेवा का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	High Tea, Lunch and Dinner etc during 14 th Convocation, 2025 on 24.03.2025 & 25.03.2025
2.	बोलीदाता फर्म का नाम व पता
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता
3.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि) (संलग्न किया जावे)	डीडी नं..... बैंक का नाम दिनांक
4.	निविदा शुल्क राशि का विवरण (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि) (संलग्न किया जावे)	डीडी नं..... बैंक का नाम दिनांक
5.	1. जी.एस.टी. पंजीयन नं. (प्रति संलग्न की जावे) (जी.एस.टी. में पंजीयन नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण-पत्र सनदी लेखाकार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा) 2. फुड लाइसेंस नं. (प्रति अनिवार्य संलग्न की जावे) 3. पेन कार्ड नं. (प्रति अनिवार्य संलग्न की जावे) 4. बोलीदाता पिछले 7 वर्षों में किसी भी राजकीय कार्यालय, विश्वविद्यालय या विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो, इस संबंध में बोलीदाता को Non-Judicial Stamp Rs. 100 पर निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र देना होगा।	1..... 2..... 3.....
6.	बोलीदाता को पिछले 7 वर्षों के दौरान राजकीय विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह में/राजकीय विभागों में VVIP कार्यक्रमों/राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में न्यूनतम 500 व्यक्ति (प्रति समारोह) हेतु विशिष्ट भोजन व्यवस्था मय केटरिंग 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके प्रमाणीकरण हेतु सक्षम स्तर से जारी कार्य आदेश/संतोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में बोली स्वीकार्य नहीं होगी।	1..... 2..... 3.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम फर्म पूरा पता मय सील



Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, e-mail ID registrar@rtu.ac.in

निविदा की विशेष शर्तें

1. तकनीकी निविदा (पार्ट-अ) एवं वित्तीय प्रस्ताव (पार्ट-ब) को अलग-अलग लिफाफों में सील बंद कर लिफाफों पर पार्ट-अ व पार्ट-ब अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए, दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में सील बंद कर लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित करते हुए निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. बोलीदाता को पिछले 7 वर्षों के दौरान राजकीय विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह में/राजकीय विभागों में VVIP कार्यक्रमों/राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में न्यूनतम 500 व्यक्ति हेतु विशिष्ट भोजन व्यवस्था मय केटरिंग (प्रति समारोह) 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके प्रमाणीकरण हेतु सक्षम स्तर से जारी कार्य आदेश/संतोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा भरने वाले व्यक्ति/फर्म को पेनकार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन, फुड लाइसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। जी.एस.टी. में पंजीयन नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को जी.एस.टी. नियमों के अंतर्गत वांछित टर्नओवर का प्रमाण-पत्र सनदी लेखाकार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
4. दीक्षांत समारोह के दिन आने वाले आगंतुकों, छात्रों, अतिथियों, सुरक्षा गार्डों, वॉलेंटियर, पेरेंट्स इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार अलग-अलग स्थानों पर पीने के पानी कैंपर (मिनरल वाटर), पेपर डिस्पोजल की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी।
5. दरें—(i) बोली में दरे शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:— (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो, तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा। (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा। (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी, जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
(iii) बोली में दरें समस्त प्रकार के कर एवं प्रभार यथा परिवहन, पैकिंग चार्ज आदि सम्मिलित करते हुये अंकित की जावे। जी.एस.टी अतिरिक्त रहेगा। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टेक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है, तो इस

- बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा टेक्स में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
6. सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है, तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
 7. वित्तीय प्रस्ताव में वर्णित सम्पूर्ण कार्यों की दरों के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण कर कार्यादेश एक निविदादाता के ही पक्ष में जारी किया जावेगा।
 8. खाना बनाने में प्रयुक्त समस्त सामग्री, गैस (व्यवसायिक सलेण्डर) भट्टी खाना बनाने के सामानों, डिस्पोजल इत्यादि की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी, जिसके लिये अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।
 9. खाना बनाने में शुद्ध एव ताजा सामग्री प्रयोग में ली जायेगी।
 10. खाना समय पर तैयार कर गरम-गरम परोसा जावेगा। खाना परोसने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा थाली, चम्मच, डोंगें इत्यादि बर्तन की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
 11. भोजन व्यवस्था के दौरान प्लास्टिक डिस्पोजल आईटम वर्जित रहेंगे।
 12. खाना परोसने हेतु स्वच्छ ड्रेस में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित वेटर्स (यूनिफार्म सहित) की व्यवस्था फर्म द्वारा की जावेगी।
 13. भोजन उच्च गुणवत्ता का होगा तथा सब्जियां ताजा एवं अच्छी गुणवत्ता की ही प्रयोग में ली जावेगी।
 14. समस्त भोजन सामग्री कार्यस्थल पर ही तैयार की जावेगी। खाना बनाने में कार्मिशियल गैस सलेण्डर उपयोग किया जावेगा।
 15. प्लेट एक बार ही उपयोग में लाई जायेगी। धोकर दुबारा उपयोग नहीं किया जावे।
 16. खाना बनाने में तेल सोना सिक्का मूंगफली एवं देशी घी शुद्ध (अमूल) प्रतिष्ठित ब्राण्ड के ही प्रयोग में लिये जायेंगे।
 17. हलवा, गुलाब जामुन/अन्य मिष्ठान में देशी घी (अमूल) का ही प्रयोग किया जायेगा।
 18. किसी भी न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।
 19. किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
 20. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
 21. बिल दो प्रतियों में मय मूल कार्यादेश के साथ संवेदक द्वारा बैंक खाते के विवरण सहित उपलब्ध करवायेगा।
 22. अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियमों के सुसंगत प्रावधान में वर्णित अनुसार लागू होगी।
 23. श्रम कानून तथा अन्य प्रचलित अधिनियमों की पालना सुनिश्चित करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
 24. खाना बनाने व केटरिंग के कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर पान, गुटका, पान मसाला, धूम्रपान का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
 25. तैयार खाने को परोसने से पहले उसकी गुणवत्ता व स्वाद की जांच विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से की जायेगी, उसके उपरान्त ही खाना परोसा जायेगा।
19. किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

26. कार्य समाप्त होने पर भोजन पाण्डाल में उपयोग किये गये बर्तन, थाली, डिस्पोजल इत्यादि संग्रहण हेतु उपयुक्त संख्या में कचरा पात्र रखने होंगे एवं आवश्यक साफ-सफाई की व्यवस्था करनी होगी। कार्य समाप्ति उपरान्त कार्य स्थल की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था निविदादाता को करवानी होगी।
27. समस्त प्रकार के खानों की संख्या 20 प्रतिशत कम अथवा अधिक की जा सकेगी जिसकी सूचना संवेदक को 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी।
28. संवेदक के बिल से TDS की नियमानुसार कटौती की जायेगी, जिसका निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. सामग्री की गुणवत्ता उत्तम न होने/कार्य व्यवस्था संतोषप्रद न होने की अवस्था में भोजन व्यवस्था समिति की अभिशंभानुसार निर्धारित शास्ति आरोपित की जा सकेगी तथा निविदा की शर्तों पर उल्लंघन करने/कार्य संपादित न करने पर नियमानुसार धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।

कुलसचिव

हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता का नाम एवं
हस्ताक्षर मय सील





Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No. -0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, e-mail ID registration@rtu.ac.in

CONDITIONS OF TENDER & CONTRACT (SR FORM 16, Rule 68 of GFAR-II)

Note: - Bidders should read these conditions carefully and comply strictly while sending their bids.

1.	Bids must be enclosed in a properly sealed envelope according to the direction given in the Bid Notice.
2.	“Bids by bona-fide dealers: - Bids shall be given only by bona-fide dealers in the goods. They shall, therefore, furnish a declaration in the Annexure-B as prescribed in RTPP Rules, 2013.
3.	(i) Any change in the constitution of the firm, etc. shall be notified forth with by the contractor in writing to the Procurement Entity and such change shall not relieve any former member of the firm, etc. from any liability under the contract. (ii) No new partner/partners shall be accepted in the firm by the contractor in respect of the contract unless he/they agree to abide by all its terms, conditions and deposit with the Procurement Entity a written agreement to this effect. The contractors receipt for acknowledgement or that of any partners subsequently accepted as above shall bind all of them and will be sufficient to discharge for any of the purpose of the contract.
4.	G.S.T. Registration: - As per Special terms of tender document (Sr. No. 3)
5.	The bidder shall sign the tender form at each page and at the end in token of acceptance of all the terms and conditions of the tender.
6.	Rates shall be written both in words and figures. There should not be errors and/or over writings. Corrections, if any, should be made clearly and initiated with dates.
7.	All rates quoted must be FOR and should include all incidental charges except statutory taxes such as G.S.T. etc. which should be shown separately. In case of local supplies the rates should include all taxes, etc., and no cartage or transportation charges will be paid by the Rajasthan Technical University, Kota and the delivery of the goods shall be given as per delivery schedule. Goods to be purchased are for the purpose of official use, hence octroi is not payable. The rates, therefore, should be exclusive of octroi, and local tax.
8.	Validity: - Tender shall be valid for a period of three months from the date of opening of Technical Bid.
9.	The approved supplier shall be deemed to have carefully examined the conditions, specifications, size, make and drawings, etc., of the goods to be supplied. If he has any doubts as to the meaning of any portion of these conditions or of the specification, drawing, etc., he shall, before signing the contract, refer the same to the Procurement Entity and get clarification.
10.	The contractor shall not assign or sub-let his contract or any substantial part thereof to any other agency.
11.	(i) Delivery Period: - The bidder whose tender is accepted shall arrange supplies/services within a period of from the date of supply/work order. (i) Extent of quantity – Repeat orders: - If the orders are placed in excess of the quantities shown in the tender notice, the bidder shall be bound to meet the required supply. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed on the rate and conditions given in the tender. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under:- (a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works and; (b) 50% of the value of goods or services of the original contract; (c) If the bidder fails to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited tender or otherwise and the extra cost incurred shall be recoverable from the bidder. (ii) If the Procurement Entity does not purchase any of the tendered articles or purchases less than the quantity indicated in the tender form, the bidder shall not be entitled to claim any compensation.

12.	<p>Bid Security (B.S.):-</p> <p>(a) Tender shall be accompanied by Bid Security of @ 2% of estimated cost of the item, without which tenders will not be considered. The amount should be deposited in either of the following forms in favour of Rajasthan Technical University, KOTA:-</p> <p>(i) Bank Draft/Bankers Cheque/Bank Guarantee in specified format of the scheduled Bank/Cash.</p> <p>(ii) Bid Security must remain valid 30 days beyond the original or extended validity period</p> <p>(b) Refund of Bid Security: - The Bid Security of unsuccessful bidder shall be refunded soon after final acceptance of tender i.e. after deposit of performance security & signing of Agreement.</p> <p>(c) The Bid Security/Performance Security money deposit lying with the Department/office in respect of other tenders awaiting approval or rejected or on account of contracts being completed will not be adjusted towards Bid Security/Performance Security money for the fresh tenders. The Bid Security may however, be taken into consideration in case tenders are re-invited.</p>
13.	<p>Forfeiture of Bid Security:- The Bid Security will be forfeited in the following cases:</p> <p>(a) When bidder withdraws or modifies its bids after opening of bids;</p> <p>(b) When bidder does not execute the agreement if any, after placement of supply/work order within specified time;</p> <p>(c) When the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;</p> <p>(d) When the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and</p> <p>(e) If the bidder breaches any provision of code of integrity prescribed for bidders specified in the Act and Chapter VI of RTPP rules.</p>
14.	<p>(1) Agreement and Performance Security deposit (Rule 75 & 76 of RTPP Rules, 2013):-</p> <p>(i) A successful bidder shall sign the procurement contract in the Form SR-17 within 7 days from the date of dispatch on which the letter of acceptance or letter of intent is dispatched to him. The bidder shall have to execute the agreement on a non-judicial stamp of specified value at its cost.</p> <p>(ii) A successful bidder shall deposit Performance Security @5% of the work order cost. The Bid Security money deposited at the time of bid will be adjusted towards Performance Security amount. The Performance Security amount shall in no case be less than Bid Security money.</p> <p>(iii) No interest will be paid by the department on the Performance Security money.</p> <p>(iv) Performance security shall be furnished in any one of the following forms:-</p> <p>a. Bank Draft or Banker's Cheque of a scheduled bank;</p> <p>b. National Saving Certificates and any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of small saving issued by a Post Office in Rajasthan, if the same can be pledged under the relevant rules. They shall be accepted at their surrender value at the time of bid and formally transferred in the name of procuring entity with the approval of Head Post Master.</p> <p>c. Bank guarantee/s of a scheduled bank.</p> <p>d. Fixed Deposit Receipt (FDR) of a Scheduled Bank.</p> <p>(v) The Performance security furnished in the form specified in clause (a) to (d) shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the bidder, including warranty obligations and maintenance and defect liability period.</p> <p>(vi) The Performance Security to be refunded within one month of the final supply of the items as per purchases order in case of one time purchase and two months in case delivery is staggered, after the expiry of contract on satisfaction completion of the same or after the expiry of the period of guarantee if any, whichever is later and after satisfied there are no dues outstanding against the bidder.</p> <p>(2)(i) Firms registered with the Director of Industries Rajasthan in respect of stores for which they are registered, subject to their furnishing the registration in original from the Director of Industries or a Photostat copy or a copy thereof duly attested by any Gazetted Officer, will be partially exempted from Bid Security money and shall pay Performance Security deposit at the rate of 1% of the estimated value of bid.</p> <p>(ii) Central Government and Government of Rajasthan Undertakings will be exempted from furnishing Performance security amount. However, they shall have to furnish a performance security</p>

declaration as per Rule 75 of RTTP Rules, 2013.

(3) Forfeiture of Performance Security Deposit:- Performance Security amount in full or part may be forfeited in the following cases:-

- (a) When any terms and conditions of the contract is breached.
- (b) When the bidder fails to make complete supply satisfactorily.
- (c) Notice of reasonable time will be given in case of forfeiture of performance security deposit. The decision of the Procurement Entity in this regard shall be final.
- (4) The expenses of completing and stamping the agreement shall be paid by the bidder and the department shall be furnished free of charge with one executed stamped counter part of the agreement.

15. **Insurance:-**

- (i) The goods will be delivered at the destination godown in perfect condition. The supplier, if he so desires, may be insured the valuable goods against loss by theft, destruction or damage, by fire, flood, under exposure to whether or otherwise viz. (war, rebellion, riot, etc.). The insurance charges will be borne by the supplier and state will not be required to pay such charges, if incurred.
- (ii) The articles may also be got insured at the cost of the Purchaser, if so desired by the purchaser. In such cases, the insurance should invariably be with Life Insurance Corporation of India or its subsidiaries.

16. **Payments:-**

- (i) Unless otherwise agreed between the parties, payment for the delivery of the stores will be made on completion of supply satisfactorily and on submission of bill in proper form by the bidder to the Procurement Entity in accordance with GF&AR, all remittance charges will be borne by the bidder.
- (ii) In case of disputed items, 10 to 25% of the amount shall be with held and will be paid on settlement of the dispute.
- (iii) Payment in case of those goods which need testing shall made only when such tests have been carried out, test results received conforming to the prescribed specification.

17. ~~(i) The time specified for delivery in the tender form shall be deemed to be the essence of the contract and the successful bidder shall arrange supplies within the period on receipt of the firm order from the Procurement Entity.~~

(ii) **Liquidated Damages:-** In case of extension in the delivery period with liquidated damages the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of Stores which the bidder has failed to supply:-

(1.)

a.	Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period	2½%
b.	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period	5%
c.	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period	7½%
d.	Delay exceeding three fourth of the prescribed period	10%

(2.) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(3.) The maximum amount of liquidated damages shall be 10%.

(4.) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrance, he shall apply in writing to the authority, which has placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

(5.) Delivery period may be extended with or without liquidated damages, if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the bidder.

18. **Recoveries:** - Recoveries of liquidated damages, short supply breakage, rejected articles shall ordinary be made from bills. Amount may also be withheld to the extent of short supply, breakages, rejected articles and in case of failure in satisfactory replacement by the supplier along with amount of liquidated damages shall be recovered from his dues and security deposit available with the department. In case recovery is not possible recourse will be taken under Rajasthan PDR Act or any other law in force.

19.	Bidders must make their own arrangements to obtain import license, if necessary.
20.	If a bidder imposes conditions, which is in addition to or in conflict with the conditions mentioned herein, his tender is liable to summary rejection. In any case none of such conditions will be deemed to have been accepted unless specifically mentioned in the letter of acceptance of tender issued by the Procurement Entity.
21.	The Procurement Entity reserves the right to accept any tender not necessarily the lowest, reject any tender without assigning any reasons and accept tender for all or anyone or more of the articles for which bidder has been given or distribute items of stores to more than one firm/supplier.
22.	The bidder shall furnish the following documents at the time of execution of agreement:- i. Attested copy of partnership deed in case of partnership firms. ii. Registration number and year registration in case partnership firm is registered with Registrar of Firms. iii. Address of residence and office, telephone numbers in case of sole proprietorship. iv. Registration issued by Registrar of Companies in case of company.
23.	If any dispute, arise out of the contract with regard to the interpretation meaning and breach of the terms of the contract, the matter shall be referred to by the parties to the Head of the University (HVC) who will appoint his senior most deputy as the sole Arbitrator of the dispute who will not be related to this contract and whose decision shall be final.
24.	All legal proceeding, if necessary arise to institute may by any of the parties (Rajasthan Technical University or Contractor) shall have to be lodged in courts situated in Rajasthan and not elsewhere.
25.	The Procurement shall be governed by the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and Rules, 2013.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

घोषणा-पत्र
(On Non-Judicial Stamp Paper Rs. 100)

खुली बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में खुली बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित ;कमइंततमकद्ध नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जा सकेगा तथा खुली बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील



Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
 - d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No.....DatedI/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:



Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is **Hon'ble Vice-Chancellor, RTU Kota.**

The designation and the address of the Second Appellate Authority is **Secretary, Technical Education, Government of Rajasthan, Jaipur.**

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:



Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:





Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010

Ph No.-0744-2473003, Fax No. 0744-2473003, e-mail JD registrar_rtu@yahoo.co.in, registrar@rtu.ac.in

NIB No. 08/2024-25

निविदा प्रपत्र (वित्तीय बोली) (पार्ट-ब)

(निविदादाता द्वारा भरकर लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत करने हेतु)

निविदादाता का नाम एवं पता :

.....

दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता :

निविदा प्रपत्र (वित्तीय बोली)

क्र. स.	कार्य का विवरण (दिनांक एवं समय) स्थान : यूआईटी ऑडिटोरियम	अनुमानित मात्रा / संख्या	अनुमानित दर प्रति प्लेट / पैकेट (रु.)	कुल अनुमानित राशि रु.
1.	<p>रिहर्सल के बाद हाई-टी (दिनांक 24.03.2025: समय दोपहर 01.00 बजे) स्थान: यूआईटी ऑडिटोरियम मीनू: वेजीटेबल पकोड़ा, शाही समोसा, कचौरी, वेज सेंडविच, खमण/आलू-पूड़ी, रसगुल्ला, हरी चटनी, मीठी चटनी, सोस एवं चाय (शुगर फ्री एवं सामान्य)। पानी: 200 ml मिनरल वाटर (Kinley/Bislery) नोट: रिहर्सल के दौरान 500 ml मिनरल वाटर (Kinley/Bislery) की 250 बोटलस की व्यवस्था भी निविदादाता को अलग से करनी होगी। नोट: भोजन व्यवस्था के समय 150 व्यक्ति प्रति काउन्टर के हिसाब से न्यूनतम 3 काउन्टर की व्यवस्था करनी होगी। नोट : उपरोक्त समय में प्रस्तावित संशोधन हेतु संवेदक को 24 घण्टे पहले अवगत करवा दिया जावेगा।</p>	400		
2.	<p>गोल्डन प्राइड डिनर (दिनांक 24.03.2025: रात्रि 7.30 बजे) स्थान: अतिथि गृह गार्डन, आरटीयू, कोटा स्टार्टर:-टमाटर सूप, हॉट एण्ड सोर सूप, स्प्रिंग रोल, हरा-भरा कबाब, पनीर टिक्का (व्हाइट), हरी-मीठी चटनी, सोस। भोजन:-पनीर लबाबदार, मैथी मलाई मटर, आलू दो प्याजा, दाल फाई (लहसुन प्याज सहित व बिना लहसुन प्याज), वेज पुलाव, बून्दी रायता, तन्दूरी रोटी, नॉन, मिस्सी रोटी व तवा रोटी बटर सहित, पूड़ी सादा एवं पूड़ी पालक, छोटी पकौड़ी, चटनी (हरी-मीठी), सलाद, अचार, पापड़, कॉफी मिठाई: राजभोग, आइसकीम बटर स्कोच (अमूल) पानी: 200 ml मिनरल वाटर (Kinley/Bislery)</p>	400		

	नोट: उपरोक्त समय में प्रस्तावित संशोधन हेतु संवेदक को 24 घण्टे पहले अवगत करवा दिया जावेगा।			
3.	<p>दीक्षांत समारोह के दिन माननीय सदस्यों (प्रोसेसन) के लिए अल्पाहार (दिनांक 25.03.2025: प्रातः 10:45 बजे)</p> <p>स्थान: यूआईटी ऑडिटोरियम</p> <p>काजू कतली (शुगर फ्री एवं सामान्य), ड्राई फ्रूट्स काजू-बादाम-पिस्ता(रोस्टेड), नमकीन एवं बैकरी बिस्किट, वैफर्स, कचौरी, रियल ज्यूस, 200ml मिनरल वाटर (Kinley /Bislery), चाय/कॉफी (शुगर फ्री एवं सामान्य)</p> <p>नोट-सर्विस हेतु उच्च क्वालिटी की क्रोकरी, स्पून (ss), यूटेनशील, पेपर नेपकीन आदि का प्रयोग अनिवार्य होगा।</p>	75		
4	<p>वी.वी.आई.पी. लंच मीनू (दिनांक 25.03.2025: समय दोपहर 01.30 बजे)</p> <p>स्थान: यूआईटी ऑडिटोरियम</p> <p>स्टार्टर:-टमाटर सूप, हरा-भरा कबाब, ड्राई कचौरी, पनीर टिक्का (व्हाइट), हरी चटनी, मीठी चटनी, सास।</p> <p>भोजन:-बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता (व्हाइट ग्रेवी), पालक कोर्न, मिक्सवेज, दाल फ्राई (प्याज लहसुन सहित, बिना प्याज लहसुन), वेज पुलाव, दही बड़ा, तन्दूरी रोटी, नॉन, मिस्सी रोटी व तवा चपाती बटर सहित, अचार, पापड़, ग्रीन सलाद, मिक्स फ्रूट सलाद, Boiled Vegetable, Steam Corn</p> <p>मिठाई: मूंगदाल हलवा, मलाई सैंडविच, शुगर फ्री आइसकीम (अमूल)</p> <p>माउथ फ्रेशनर: सौंफ, सुपारी, पान मिक्सर,</p> <p>पानी: मिनरल वाटर (हिमालया)</p> <p>नोट: माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के साथ वी.वी.आई.पी. सदस्यों (लगभग 25 सदस्य) के लिए भोजन की व्यवस्था की जायेगी तथा वी.आई.पी. अतिथियों, अकादमिक काउंसिल एवं प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों, कार्यालयाध्याक्षों, डीन्स, विभागाध्यक्षों (लगभग 100 सदस्य) के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी।</p> <p>नोट: सर्विस हेतु प्रशिक्षित वेटर्स (यूनिफार्म सहित), उच्च क्वालिटी की बॉन चाईना क्रोकरी, स्पून (ss), यूटेनशील, क्लॉथ नेपकीन आदि का प्रयोग अनिवार्य होगा।</p> <p>नोट: उपरोक्त मीनू एवं समय में प्रस्तावित संशोधन हेतु संवेदक को 24 घण्टे पहले अवगत करवा दिया जावेगा।</p>	125		

5.	<p>दीक्षान्त समारोह का लंच मीनू: (दिनांक 25.03.2025: समय दोपहर 1.30 बजे) स्थान: यूआईटी ऑडिटोरियम भोजन:—बटर पनीर मसाला, मिक्स वेज, मलाई कोफता (व्हाइट ग्रेवी), दाल फ्राई (लहसुन प्याज सहित व बिना लहसुन प्याज), वेज पुलाव, बून्दी रायता, तन्दूरी रोटी, नॉन, मिस्सी रोटी व तवा रोटी बटर सहित, पूड़ी सादा एवं पूड़ी पालक, छोटी पकौड़ी, चटनी (हरी-मिठी), सलाद, अचार, पापड़, कॉफी मिठाई: मावा बाटी (स्टफ गुलाब जामून), आइसक्रीम (अमूल) पानी : 200 ml मिनरल वाटर (Kinley/Bislery) नोट: मैन प्रोग्राम के दौरान पंडाल के अन्दर 500 ml की 1000 मिनरल वाटर बोटलस (Kinley/Bislery) की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी। नोट: भोजन व्यवस्था के समय 150 व्यक्ति प्रति काउन्टर के हिसाब से न्यूनतम 5 काउन्टर की व्यवस्था करनी होगी।</p>	1000		
6.	<p>भोजन पैकेट्स: स्थान: यूआईटी ऑडिटोरियम (दिनांक 25.03.2025: समय दोपहर 11.30 बजे) पैकेट: काला गुलाब जामुन (एक नग), गिरी पाक (एक नग), पुड़ी 10 नग, चना मसाला (लट-पट), भिण्डी फ्राई, नमकीन, अचार</p>	200		
7.	<p>प्रेस कान्फ्रेंस मिटिंग हाई-टी (दिनांक 21.03.2025, समय 11.00 बजे) स्थान: कुलपति सचिवालय के पास गार्डन में, आरटीयू, कोटा मीनू:—खमन, वेज सेण्डविच, पनीर पकोडा, चटनी (मीठी एवं हरी), सोस, रसगुल्ला, केसर जलेबी (देशी घी), चाय, कॉफी, मुकवास पानी:—200ml मिनरल वाटर बोटल (Kinley/Bislery) नोट: प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान वी.सी. सचिवालय के सभाकक्ष में उपस्थित अतिथियों एवं सदस्यों के लिए 200 ml मिनरल वाटर (Kinley/Bislery) की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी तथा गणमान्य अतिथियों के लिए हाई-टी की व्यवस्था कुलपति सचिवालय के सभा कक्ष में करनी होगी। सर्विस हेतु प्रशिक्षित वेटस (यूनिफार्म सहित), उच्च क्वालिटी की बॉन चाईना क्रोकरी, स्पून(ss), यूटेनशील, क्लॉथ नेपकीन आदि का प्रयोग अनिवार्य होगा।</p>	100		
	कुल राशि रु. (जी.एस.टी रहित)			
	जी.एस.टी. प्रतिशत			
	कुल राशि रु.			

नोट:-

1. संवैधानिक करें यथा जी.एस.टी (जो भी लागू हो) विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जावेंगे। अतएव, संवेदक द्वारा Price Bid के Basic Price (Without Taxes) अंकित की जावे।
2. **सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।** अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है, तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
3. **दीक्षांत समारोह के दिन आने वाले आगंतुकों, छात्रों, अतिथियों, सुरक्षा गार्डों, वॉलंटियर, पेरेंट्स इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार अलग-अलग स्थानों पर पीने के पानी कैंपर (मिनरल वाटर), पेपर डिस्पोजल की व्यवस्था भी करनी होगी।**
4. वित्तीय प्रस्ताव में वर्णित सम्पूर्ण कार्यों की दरों के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण कर कार्यादेश एक निविदादाता के ही पक्ष में जारी किया जावेगा।
5. उपरोक्त भोजन व्यवस्था मय कैंटरिंग के उपलब्ध करवानी होगी एवं वांछित संख्या में तन्दूर भट्टियों (कम से कम 8) की व्यवस्था करनी होगी। बोली में दरें समस्त प्रकार के कर एवं प्रभार यथा परिवहन, पैकिंग चार्ज आदि सम्मिलित करते हुये अंकित की जावे। जी.एस.टी अतिरिक्त रहेगा।
6. निविदा प्रपत्र में दी गई दरें किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। ओवरराइटिंग/कटिंग होने पर उस पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक है।
7. संवेदक द्वारा कार्यादेश के अन्दर तीन योम राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र (एस.आर.-17 प्रपत्र) एवं राशि रु. 50000/- की प्रतिभूति राशि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा एवं संविदा की विशेष शर्तें पृथक से संलग्न है। निविदा एवं संविदा की शर्तों के साथ-साथ RTPP Act, 2012 and Rules, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
9. उपर्युक्त कार्य में मिनरल वाटर काम में लिया जाना अनिवार्य होगा। मार्कलेस क्रोकरी मय पेपर नेपकीन, पेपर डिस्पोजल, वांछित वेटर्स मय पौशाक की व्यवस्था करनी होगी। भोजन व्यवस्था के दौरान प्लास्टिक डिस्पोजल आईटम वर्जित रहेंगे।
10. निविदादाता द्वारा निविदा के समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मय सील अंकित किया जाना अनिवार्य है।

कुलसचिव

हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता का नाम एवं
हस्ताक्षर मय सील